



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 501]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 28, 1979/अग्राहायण 7, 1901

No. 501]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 28, 1979/AGRAHAYANA 7, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

प्रथम अनुसूची

(औद्योगिक विकास विभाग)

पटसन प्रायुक्त का कार्यालय

अधिसूचना

कलकत्ता, 28 नवम्बर, 1979

का० भा० 763 (अ).— पटसन (अनुशासन एवं नियंत्रण) आदेश, 1961 के खण्ड 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, ए० के० मुखर्जी, पटसन प्रायुक्त, एतद्वारा अधिकतम बहिर्निर्माणी मूल्य के रूप में इस अधिसूचना के साथ संलग्न प्रथम अनुसूची के स्तम्भ (3) में उल्लिखित मूल्य निश्चित करता हूँ जिस पर उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में तदनु-रूप प्रविष्टियों में उल्लिखित पटसन यंत्रों के किम्बो का क्रय अथवा विपणन दिमम्बर, 1979 महीने के दौरान किया जाएगा।

बशत कि जूट वस्त्रों की उक्त किम्बो के सम्बन्ध में ऐसा निर्धारित मूल्य उक्त द्वितीय अनुसूची के स्तम्भ (1) में तदनु-रूप प्रविष्टियों में उल्लिखित निम्नतम सहित शक्ति के सम्बन्ध में अधिसूचना सं संलग्न दूसरी अनुसूची के अनुकूल स्तम्भ (2) अथवा (3) या दोनों में उल्लिखित सीमा तक कम हो जाये।

2. इस अधिसूचना के अधीन निर्धारित किया गया मूल्य उत्पाद शुल्क एवं विक्री कर छोड़ कर होगा जो क्रेता द्वारा अगल पर बहिर्निर्माणी मूल्य के अनिवार्य अदा किया जाएगा।

क्रम सं०	जूट वस्त्रों की किम्बो	बहिर्निर्माणी अधिकतम मूल्य प्रति 100 बोरे
1	2	3
		र०
1	43-1/2" × 26-1/2" साम्य वजन सिला कितारा 44" × 26-1/2" सिला, 2-1/4 पौण्ड प्रति थैला 6 × 8, 3-नीले, सूखे मिले तथा अन्य मामलों में वर्तमान भारतीय मानक संस्थान विनिर्देशन (संख्या आई० एम० : 2566—1965 अद्यतन संशोधित) आकार वाले बी० ट्वील्स थैले।	455.63
2.	33" × 26-1/2" साम्य वजन सिला कितारा 44" × 26-1/2" सिला, 2-1/4 पौण्ड प्रति थैला, 6 × 8, 3-नीले सूखे मिले तथा अन्य मामलों में वर्तमान भा० मा० सं० विनिर्देशन (संख्या आई० एम० : 2566—1965 अद्यतन संशोधित) आकार वाले बी० ट्वील्स थैले।	349.31

1	2	3
3. 43-1/2" × 28" साम्य बजन सिला कितारा 56" × 28" सिला, 2-1/2 पोण्ड प्रति बैला, 7 × 9 अथवा 8 × 8 मादे सूखे मिले तथा अन्य सामग्री में वर्तमान भा० मा० सं० दिनि- र्देशन (संख्या : 3984—1967 अद्यतन संशो- धित) आकार वाले डी० डब्लू मैदा के थैले ।		413.54

द्वितीय अनुसूची

क्रम सं० 1 43-1/2" × 26-1/2" आकार वाले डी० दिवोल्स थैले

निम्नतम सहन शक्ति	मूल्य में कमी प्रति 100 थैले	
	ताना पथ	बाना पथ
1	2	3
भा० मा० सं० मानक सहन शक्ति	160 कि०ग्रा०	165 कि०ग्रा०
	रु० पै०	रु० पै०
160	—	0.55
155	0.39	1.02
150	1.06	1.50
145	1.62	2.11
140	2.24	3.12
135	2.86	1.27
130	3.42	—

क्रम सं० 2 33" × 26-1/2" आकार वाले डी० दिवोल्स थैले

निम्नतम सहन शक्ति	मूल्य में कमी प्रति 100 थैले	
	ताना पथ	बाना पथ
1	2	3
भा० मा० सं० मानक सहन शक्ति	160 कि०ग्रा०	165 कि०ग्रा०
	रु० पै०	रु० पै०
160	—	0.42
155	0.30	0.77
150	0.80	1.14
145	1.23	1.60
140	1.70	2.59
135	2.17	3.24
130	2.59	—

क्रम सं० 3 43-1/2" × 28" आकार वाले डी० दिवोल्स

निम्नतम सहन शक्ति		मूल्य में कमी प्रति 100 थैले	
ताना पथ	बाना पथ	ताना पथ	बाना पथ
1	2	3	4
भा० मा० सं० मानक सहन शक्ति		160 कि०ग्रा०	143 कि०ग्रा०
		र० पै०	र० पै०
160 कि० ग्रा०	143 कि० ग्रा०	--	--
155	138	0.34	0.48

1	2	3	4
कि०ग्रा०	कि० ग्रा०	रु० पै०	रु० पै०
145	128	0.92	0.88
110	123	1.41	1.31
135	118	1.95	1.83
130	113	2.49	2.97

[क्र० ० 8/1/79-जुट]

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)
OFFICE OF THE JUTE COMMISSIONER
NOTIFICATION

Calcutta, the 28th November, 1979

S.O. 763(E).— In exercise of the powers conferred by clause 8 of the Jute (Licensing and Control) Order, 1961, I.A.K. Mukherjee Jute Commissioner hereby fix the prices mentioned in column (3) of the First Schedule appended to this notification as the maximum ex-factory price at which the varieties of the jute textile mentioned in the Corresponding entries in column (2) of the said Schedule shall be purchased or sold during the month of December, 1979.

Provided that the prices so fixed in respect of the said varieties of jute textiles shall be reduced to the extent specified in column (2) or column (3) or both of the Second Schedule appended to this Notification in respect of minimum breaking strength specified in the corresponding entries in column (1) of the said Second Schedule.

2. The prices fixed under this notification shall be exclusive of the duty of excise and the sales tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser at actuals.

THE FIRST SCHEDULE

Sl. No.	Varieties of jute textiles	Maximum ex-factory price per 100 bags
		Rs.
1.	B. Twill bags of the size 43 1/2" × 26 1/2" Hd. W.I.P. 44" × 26 1/2" Hd. 2 1/4 lbs. per bag, 6x8, 3-blue, dry sewn and conforming in all other respects to the current ISI Specification (No. IS : 2566—1965) as amended up-to-date).	455.63
2.	B. Twill bags of the size 33" × 26 1/2" Hd. W.I.P. 44" × 26 1/2" Hd. 2 1/4 lbs. per bag, 6x8, 3-blue, dry sewn and conforming in all other respects to the current ISI Specification (No. IS : 2566—1965, as amended up-to-date).	349.31
3.	DW Flour bags of the size 43 1/2" × 28" Hd. W.I.P. 56" × 28" Hd. 2 1/2 lbs. per bags, 7x9 or 8x8, plain, dry sewn and conforming in all other respects to the current ISI Specification (No. IS : 3984—1967, as amended-up-to date).	443.54

SECOND SCHEDULE

S.No. 1 B. Twill bags of the size 43 1/2"x26 1/2"

Minimum breaking strength	Reduction in price per 100 bags	
	Warp way	Weft way
(1)	(2)	(3)
ISI Standard breaking strength	160 Kg. Rs. P.	165 Kg. Rs. P.
160 Kg.	—	0.55
155 Kg.	0.39	1.02
150 Kg.	1.06	1.50
145 Kg.	1.62	2.11
140 Kg.	2.24	3.42
135 Kg.	2.86	2.27
130 Kg.	3.42	—

S. No. 2 B. Twill bags of the size 33"x26 1/2"

Minimum breaking strength	Reduction in price per 100 bags	
	Warp way	Weft way
(1)	(2)	(3)
ISI Standard breaking strength	160 Kg. Rs. P.	165 Kg. Rs. P.
160 Kg.	—	0.42
155 Kg.	0.30	0.77

(1)	(2)	(3)
150 Kg.	0.80	1.14
145 Kg.	1.23	1.60
140 Kg.	1.70	2.59
135 Kg.	2.17	3.24
130 Kg.	2.59	—

S. No. 3 DW Flour bags of the Size 43 1/2"x28"

Minimum breaking strength		Reduction in price per 100 bags	
Warp way	Weft way	Warp way	Weft way
(1)	(2)	(3)	(4)
ISI Standard Breaking strength		160 Kg. Rs. P.	143 Kg. Rs. P.
160 Kg.	143 Kg.	—	—
155 Kg.	138 Kg.	0.34	0.48
150 Kg.	133 Kg.	0.92	0.88
145 Kg.	128 Kg.	1.41	1.31
140 Kg.	123 Kg.	1.95	1.83
135 Kg.	118 Kg.	2.49	2.98
130 Kg.	113 Kg.	2.97	3.71

[F. No. 8/1/79-Jute]

A. K. MUKHERJEE, Jute Commissioner

